

RCC Bridge NIT 57 to para a  
yadv tosa Ch - 1800

FDR phase-II

**Schedule XLV-Form No. 134**

1365

Supar DIVISION

                     SUB-DIVISION

**MEASUREMENT BOOK**

प्रमाणित किया जाता है कि इस मापी  
पुस्तिका में मापी गई कुरा कुल 100 (सुवी)  
पुस्तिका में मापी गई कुरा कुल 100 (सुवी)  
पुस्तिका में मापी गई कुरा कुल 100 (सुवी)  
पुस्तिका में मापी गई कुरा कुल 100 (सुवी)

2/10/15

कर्मचारी अधिकारी  
ग्रामीण कार्य विभाग  
ग्राम प्रमुख (सुवी)  
15/10/15

Sch. XLV-Form No. 134

RWD, Supaul DIVISION  
Kishanpur SUB-DIVISION

## Measurement Book



No. 1365

Name of officer \_\_\_\_\_

Date of first entry \_\_\_\_\_

Date of last entry \_\_\_\_\_

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of work:- Restoration					
ppr Road Form of RCC HL					
Bridge NH57 to Parsu yadav					
tolo at ch-18.00 (PMGSF)					
imble FDR Phase-II					
Agency:- Departmental					
Authority:- E.E. RWD, Supaul					
Date of measurement:-					
1) Sand filling in ditch & breadth portion of Road					
as per drawing					
A, Side					
$1 \times 25.0 \times 2.0 \times 1.5 = 75.0$					
A <sub>2</sub> Side					
$2 \times 18.0 \times 2.5 \times 1.2 = 108.0$					
Total = 183.0					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>   03/11/19  JE </div> <div>   03/11/19  AE </div> </div>					

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
2) Labour filling empty cement bags with local sand-					
A <sub>1</sub> Side					
		1x25.0m	4.5m	0.3	33.75
A <sub>2</sub> Side					
		2x18.0m	4.0m	0.3	43.20
					Total = 76.95 m <sup>3</sup>
					Total (in %) = 22.63
					Sum = 23.00
03/11/019					
JE					

ABSTRACT OF COST

1) Sand filling in foundation trenches as per drawing					
Qty - 183.0 m <sup>3</sup> vide TMB					
@ 489.80 Rs/m <sup>3</sup>					89,633.40
2) Labour filling empty cement bags with local sand-					
Qty - 23.0 Percent vide					
TMB Page No - 2					
@ 3578.50 Rs/100					82305.50
					Total = 1,71,938.9
					Sum = 1,71,939.00

maxim for

Continuation

03/11/019  
JE

03/11/19  
AC

3/11/019  
E.E. Supaul



phase-II

## Inspection Report for Flood Damage Work

Date:- 05/11/2019

1. Name of PIUs :- E.E RWD WORKS DIVISION, SUPAUL
2. Name of Block :- Kishanpur (Supaul)
3. Name of Road :- RCC HL Bridge NH57 to Parbhya yadav Jola at ch-1800

### A. For Road

1. Damage Location/Chainage :-
2. Damage Length :-
3. Nature of Damage :-
4. Details of Restoration Works :-
  - i. Material being used in Restoration works:-
  - ii. Equipments/Tools being used in Restoration works :-
  - iii. Procedure taken up in Restoration works :-
  - iv. Restored Length :-

N.A

### B. For Bridge

- Approach
1. Damage Location/Chainage :- ch - 0-25m A<sub>1</sub> side & (0-18) A<sub>2</sub> side
  2. Nature of Damage :- 43.0m
  3. Detail of Restoration Works :-
  4. Detail of Restoration Works :-
    - i. Material being used in Restoration works :- Sand, Soil, empty Cement Bags & Brick Bat
    - ii. Equipments/Tools being used in Restoration work :- Tractor & JCB
    - iii. Procedure taken up in Restoration works :-
    - iv. Restored Length :- 43.0m

*[Signature]*  
05/11/2019  
JE

*[Signature]*  
5/11/19  
AE

EE

C/S

*[Signature]*  
5/11/19

*[Signature]*  
signature

(Name of Inspector)